



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2292]

No. 2292]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 23, 2012/अग्रहायण 2, 1934

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 23, 2012/AGRAHAYANA 2, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2775(अ).—विध्वंसक कीट और नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं :-

1. लघु शीर्ष और आरंभ —
 - (1) इस आदेश को वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2012 कहा जाएगा ।
 - (2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।
2. "हवाईपत्तन" शीर्षक के अंतर्गत वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन), आदेश 2003 की अनुसूची । में क्रम संख्या 13 के बाद और उससे संबंधित प्रवृष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रवृष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

"14 कोयम्बटूर
15 बागडोगरा" ।

3. वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन), आदेश 2003 में अनुसूची ।। में क्रम संख्या 61 के बाद और उससे संबंधित कॉलम में निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रवृष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

“62 थार ड्राय पोर्ट आईसीडी सानंद, अहमदाबाद	गुजरात	इनलैण्ड कन्टेनर डिपो	वनस्पति संगरोध केन्द्र, काण्डला
63 आईसीडी लोनी	नई दिल्ली	इनलैण्ड कन्टेनर डिपो	वनस्पति संगरोध केन्द्र, रंगपुरी

4. वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन), आदेश 2003 में क्रम संख्या 11 और 16 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रवृष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्

क्र०सं०	पौध स्पेसीज	पौध सामग्रियों की श्रेणी	उद्गम देश	पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त घोषणा	आयात की विशिष्ट स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“11	चावल (ओरिजा साटिवा)	(i) बुआई के लिए बीज	(i) निम्नलिखित से मुक्त : (क) ग्रेनरी विवील (सिटोफिलस ग्रेनरी) (ख) शीथ ब्राउन रॉट (स्यूडोमोनस प्यूसकोवेजीने) (ग) सीडलिंग रॉट (स्यूडोमोनस ग्लूमे) (घ) बैक्टेरिया हलो ब्लाइट (स्यूडोमोनस सरिन्जे पीवी ओराइजे) (ड.) संगरोध खरपतवार बीज	पूरी रात बीज को भिगोना और 10 मिनट तक 52 डिग्री सेल्सियस पर गर्म जल से उपचार	(क) नई बीज विकास नीति (एनपीएसडी), 1988 के प्रावधानों के अनुसार कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय का अनुमोदन (ख) निदेशक, एनपीपीजीआर, नई दिल्ली / निदेशक, चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद द्वारा सिफारिश पर्यवेक्षण मानीटरी और परीक्षण के अधीन
16	गेहूँ (ट्रिटिकुम एपीपी)	(i) बुआई के लिए बीज	(i) निम्नलिखित से मुक्त : (क) डवारफ बंट (टिल्लेटिया कनट्रवरसा) (ख) इयरगोट (क्लाविसेप्स पुरपुरिअ) (ग) स्पीक रॉट (स्यूडोमोनस एट्राफेसिएन्स) (घ) ग्रेनरी विवील (सिटोफिलस ग्रेनरी) (ड.) संगरोध खरपतवार बीज		(क) नई बीज विकास नीति (एनपीएसडी), 1988 के प्रावधानों के अनुसार कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय का अनुमोदन (ख) निदेशक, एनपीपीजीआर, नई दिल्ली / निदेशक, गेहूँ अनुसंधान निदेशालय, करनाल द्वारा सिफारिश पर्यवेक्षण मानीटरी और परीक्षण के अधीन

5. अनुसूची VI का संशोधन— वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन), आदेश 2003 की अनुसूची VI का संशोधन में —

(i) कॉलम (4) में खपत हेतु सब्जी के संबंध में प्रविष्टि (iii) के सामने कॉलम 3 में “असपारेगस ओफिसिनैलस (एस्पारेगस)” के संबंध में क्रम संख्या 38 के सामने मद (i) कॉलम (5) कॉलम (6) में उनसे संबंधित प्रविष्टि के बाद क्रमशः निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाए, नामतः

(4)	(5)	(6)
“(ii) पेरू	निम्नलिखित से मुक्त : (क) काइसोडेक्सीस में शामिल है (सोयाबीन लूपर) (ख) पेरिड्रोमा सोसिया (परली अंडरविंग माथ) (ग) स्पोडोपेटेरा फूरुगीपरडा (फाल आरमीवर्म)	(i) मृदा और अन्य वनस्पति के गड़ढ़ों से मुक्त (ii) एनएपी के अंतर्गत 21 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे उपर 2 घण्टे तक 32 ग्राम / घन मीटर की दर से मिथाईल ब्रोमाईड से धूमन और उपचार के साथ पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पृष्ठांकित किया जाए ।

(ii) क्रम संख्या 58 और उनसे संबंधित प्रवृष्टियों के निम्नलिखित कम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :

क्र०सं०	पौध स्पेसीज	पौध सामग्रियों की श्रेणी	उद्गम देश	पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त घोषण	आयात की विशिष्ट स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58	कजनुस कजन (अरहर)	खपत हेतु अनाज (बीज)	(i) आस्ट्रेलिया	रिचाडिया बेसिलेनिस से मुक्त	(i) मृदा संदूषण से मुक्त (ii) 21 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा समतुल्य पर 24 घण्टे तक 32 ग्राम / घन मीटर की दर से मिथाईल ब्रोमाईड से धूमन अथवा वनस्पति संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित अन्य कोई उपचार तथा उद्गम देश अथवा निर्यात पर जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पर उपचार पृष्ठांकित किया जाए ।
			(ii) मोजाबिक	(i) निम्नलिखित से मुक्त : (क) क्लेविंगराला एलोगेट (अफ्रीकन पाडबग) (ख) डाइडीलेंसस अफ्रीकेमस (पिन्टपौड नेमाटोड) (ग) होपालेमस पैरारोबुस्टस (लैन्स निमाटोड) (घ) मेलवाईडोजिन एथियोपिकप (ङ) मेलवाईडोजिन डेकालिनिटा (अफ्रीकल कॉपी रूट नॉट निमाटोड)	
				(च) अलेक्द्रा वोगेली (येलो क्वि वीड) (छ) क्रसाथेमोडाडस मोनीलाईफैरा (बोक्सीड) (ज) डाईजीटारिया वेलूटीना (वेलवेट फिंगर ग्राम)	

				(झ) ओरोबाचे माईनर (कॉमन ब्रूमरैप) () ओर्जा लॉलीस्टामिनाता (पैरीनियल वीच राईस) (ट) टैफनस टैफैनीस्ट्रम (वाईल्ड रेडिस) (ठ) रिकाड्रिया ब्रासिलीएनसीस (वाईट-आर्ट आस्ट्रेलिया) (ढ) सेनेसीमो ईनाईक्यूडेनस (अफ्रीकन टेगवार्ड) (ड) सेनेलीयो मेडेगास्कारीएनसीस (फायर बुड)	
			(iii) म्यांमार	निम्नलिखित से मुक्त : (क) कार्डीओस्पेरमय हालीकाकाबम (वालो ऑन वाईन) (ख) फिसालिस एंग्यूलता (कटलीफ ग्राउंड चैरी) (ग) प्यूरैरिया मोनटान वर्रेंज मोनटाना (रोडेशियन कुडजुवाइन) (घ) रिकार्डिया ब्रासीलियनसिस (वाईट आई आस्ट्रेलिया)	
			(iv) नेपाल	निम्नलिखित से मुक्त: (क) लोलियम मल्टीफोरम (इटालियनफोरे ग्लास) (ख) पोलीगोनम पर्सीकारिया (रेड शंक) (ग) वेरोनिका पर्सीया (क्रीपिंग स्पीडवेल)	
			(v) चीन	हेट्रोडेता गलाईसाईन (साईस्ट नेमारेड) से मुक्त	
			(vi) ईरान	एपोमिलोइस सेरोटोनिया (कैरोब मोथ) से मुक्त	
			(vii) केन्या	निम्नलिखित से मुक्त (क) क्लावीशा इलोन्गेट (अफ्रीकन पोडवग) (ख) मेलोग्रोमाईजा चालकोसोमा (पोड फलाई) (ग) डाईलेन्कस डिपासाकी (स्टेम एंड बल्क नेमाटोड)	

				(घ) होपलोलाईमसपैरारोवुस्टस (लैस नेमाटोड) (ङ) प्रेटीलेन्कस गुडेटमी (बनाना लेजन नेमाटोड) (च) अलेक्ट्रा वोगेल्ली (यलो विच बीड) (छ) डिजीटारिया वेलूटीना (वेलवेट फिगर ग्राम) (ज) सिरसियम बलगेर (स्पेयर थिस्टल) (झ) कोनिज्जा समाट्रेनसिस (टाल फलीवेन) () लोलियम मल्टीफोरम (ईटालियन रे ग्रास) (ट) लोनीसेरा जेपीनीका (जापनीज हन्नीसकल) (ठ) ओरोवेन्ज माईनर (सामान्य ब्रूमरैप) (ड) ओरिजा लोलीस्टामीनाता (पैरेनियल वाईल्ड राइस) (ड.) पैनेसेटियम मैक्रोयूरम (अफ्रीकन फीदर ग्रास) (त) पोलीगोनियम पैरीसकेरिया (रेड शंक) (थ) राफैन्स रैफीनीस्ट्रम (वाईल्ड रैडिश) (द) रिकार्डिया ब्रासीलीनसीस (वाईट-आई आस्ट्रेलिया) (ध) सेन्सियो मेडागास्कैरीएन्सिस (फायरवुड)	
			(viii) पाकिस्तान	शून्य	
			(ix) तंजानिया	निम्नलिखित से मुक्त (क) क्लावीयेला ईलोनगर (अफ्रीकन पोडवग) (ख) होपालेमस पेरासरोवुस्टस (लैन्स नेमाटोड) (ग) मेलाइडोजिन डेकालीनीटा (अफ्रीकन कॉफी रुट-नोट नेमाटोड) (घ) मेलाइडोजिन ईथियोपिका (ड.) प्रेटालैन्कस गुडेई (बनाना	

				लेजनेनेमाटोड) (च) एलेक्ट्रा वोगेल्ली (येलो वीच खरपतवार) (छ) डीजीटारियावेलूटिना (वैलवेट फिंगर ग्रास) (ज) ओरोवेन्स माईनोर (कामन बूमरोप) (झ) औरेंजा लॉगीस्टामीनाटा (पेरिनल वाईल्ड ग्रास) () पैनिसेटम मैक्रोयूरम (अफ्रीकन फीदर ग्रास) (ट) स्ट्रीगा एस्पेरा (विच वीड)	
			(x) मालावी	निम्नलिखित से मुक्त (क) क्लावीग्राला इलोनगेट (अफ्रीकन पोडबग) (ख) डीटीलेन्कस डिस्ट्रकटर (पीनट पोड नेमाटोड) (ग) होपोलैमस पैरारोवस्टस (लैस नेमाटोड) (घ) मेलोर्डोजाईन एक्रोनिया (अफ्रीकन काटन रूट नेमाटोड) (ड.) एलेक्ट्रा वोगेल्ली (येलो वीच वीड) (च) डीजीटारिया वेलूटीना (वैलवेट फिंगर ग्रास) (छ) ओरोबान्च माईनर (सामान्य बूम रैथ) (ज) ओरजा लॉगीस्टामीनाटा (पैरिन्नुयल वाईल्ड राईस) (झ) पैन्निसेटियम मैक्रोयूरम (अफ्रीकन फीदर ग्रास) () रिकार्डिया ब्रासीलिन्सीस (वाईट-आई आस्ट्रेलिया) (ट) स्ट्रीगा एस्पेरा (वीच वीड)	
			(xi) यूगांडा	निम्नलिखित से मुक्त (क) क्लैवीग्राला इलॉगेट (अफ्रीकन पोडवग) (ख) होपोलैमस पैरारोवस्टस (लैस नेमाटोड) (ग) प्रेटामलेन्कस गुडडेयी (बनाना लेसिन नेमाटोड)	

				(घ) एलेक्ट्रा बोगेल्ली (येलो वीच वीड) (ङ.) सैन्ट्रोडोमा पूवेस्कैन (सेन्ट्रो) (च) कोनीजा सुमाट्रैनसिस (टाल फलीबैन्स) (छ) डीजीटारिया वेल्टिना (वेल्वेट फिंगर ग्रास) (ज) आरोबेन्स माईनर (सामान्य ब्रूमरैप) (झ) पैन्नीसेटम मैक्रोयूरम (अफ्रीकन फीदर ग्राम) (ट) पालीगोनम पेरसीकारिया (रैड शंक) (ड) मेलानाग्रोमायजा चाल्कासोमा (बीज बोडफलाई)	
--	--	--	--	---	--

(iii) खपत के लिए ताजे फल श्रेणी के मुकाबले स्ट्रिस (नींबू, लाईम, संतरा, अंगूर फल, मैन्ड्रीन्स आदि और अन्य रुटसियस से संबंधित क्र. सं. 83 के मुकाबले:

(क) स्तंभ 6 आस्ट्रेलिया में प्रविष्टि के लिए के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाए नामतः

“ वैक्ट्रोसेरा एकबाईलोनिस, बैक्ट्रोसेरा निमोहूमेरालीज, वक्टोसेरा ट्रिमोनी (क्वीनसलैंड फ्रूटफलाई) और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में सेराटिटीस कैपीटाटा (मैडीटरेनीरियन फ्रूट फलाई)

या

एनएवी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेट या इससे ऊपर 2 घंटे के लिए 32 ग्रा. प्रति क्यूबिड मीटर की दर पर एमवीयूमन या उसके समानुपात क्वीनसलैंड फलाई और मैडीटरेनीरियन फ्रूट फलाई

या

मैडीटरेनियन फ्रूट फलाई के लिए 20 दिनों तक या 3 डिग्री सेंटीग्रेट या उससे कम पर पारगमन में शीत उपचार और क्वीसलैण्ड फ्रूट फलाई 16 दिनों के लिए ।

(ख) कॉलम 4 में मद (xii) तथा कॉलम (5) और कॉलम (6) में उनसे संबंधित निम्नलिखित प्रविष्टिया क्रमशः अंतःस्थापित की जाएंगी, नामतः

(4)	(5)	(6)
“(xiii) टर्की	निम्नलिखित से मुक्त : सेशटिटीस कैपीराटा (मैडीटेरियन फ्रूट फ्लाई)	अंतर्राष्ट्रीय मानको के अनुसार “सेरेटिटीम कैपीराटा मैडीटेरियन फ्रूट फ्लाई के लिए नाशीजीव मुक्त स्थिति या एनएपी या मैडीटेरियन फ्रूट फ्लाई के लिए एनएडी या समतुल्य पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर की दर पर 2 घंटों के लिए 32 ग्राम/घन मीटर दर पर मिथाईल ब्रोमाईट धूमन या 10 दिनों के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड न्यून; 11 दिनों के लिए 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड या 12 दिनों के लिए 11 डिग्री सेंटीग्रेड या और लदान पूर्व शीतोपचार मैडीटेरियन फ्रूट फ्लाई पारगमन पूर्वशीतन ।
“(xiv) स्पेन	निम्नलिखित से मुक्त : सेशटिटीस कैपीराटा (मैडीटेरियन फ्रूट फ्लाई)	अंतर्राष्ट्रीय मानको के अनुसार “सेरेटिटीम कैपीराटा मैडीटेरियन फ्रूट फ्लाई के लिए नाशीजीव मुक्त स्थिति 10 दिनों के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड न्यून; 11 दिनों के लिए या 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड न्यून; 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या 12 दिनों के लिए मैडीटेरियन फ्रूट फ्लाई के लिए पूर्व शीतित या एनएपी पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे उच्च की दर पर 2 घंटों के लिए 32 ग्राम/घन मीटर की दर पर मिथाईल ब्रोमाईट धूमन या मैडीटेरियन के सामने उसी के समकक्ष”

(iv) कॉलम 4 में मालस डोमेस्टिका से संबंधित प्रविष्टि (ii) के सामने कॉलम (2) क्रम संख्या 262 के सामने मद 3 के बाद और कॉलम (5) और कॉलम (6) में उनसे संबंधित निम्नलिखित मद की प्रविष्टिया अंतःस्थापित की जाएंगी, नामतः

(4)	(5)	(6)
“(iv) टर्की	निम्नलिखित से मुक्त : (क) बाइटूरस टामेन्टोसस (रेसबेरी बीटल) (ख) सेरेटिटीस कैपिटेटा (मैडीटेरियन फ्रूट फ्लाई) (ग) इपिडायसपिस लेपरी (यूरोपियन पीयर स्केल) (घ) फेन्कलीनीला आक्सीडेंटेलीस (वेस्टर्न प्लावर थ्रिप्स) (ड.) ग्राइफोलिता प्यूनेब्राना (रेड प्लम मंगोट) (च) ग्राइफोलिता मोलेस्टा (ओरिएण्टल फ्रूट मोथ) (छ) हैडया न्यूबिफेरना (बंड मोथ) (ज) होपलोकैम्पा (झ) लीमेनटिया मुनाचा (नन मोथ) (ट) इरिविनीया एमीलोओरा (फायर ब्लाइट) (ठ) टोमैटो रिगसपाट वाइरस (रिगसपाट ऑफ टोमैटो)	(क) अंतर्राष्ट्रीय मानको के अनुसार “सेराटाइटिस कैपीराटा (मैडीटेरियन फ्रूट फ्लाई) (ख) 10 दिनों तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा उससे नीचे 11 दिनों तक 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा कम; 12 दिनों तक 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा कम पर लदान पूर्व शीतोपचार तथा साथ ही मैडीटेरियन फ्रूट फ्लाई के लिए रास्ते में प्रशीतन ।

(V) सैलिकस एसपीपी (विलोज) से संबंधित क्रम संख्या 279 के सामने, कॉलम 3 में प्रविष्टियों को मद संख्या 1 के रूप में पुनःसंख्यायित किया जाएगा और कॉलम 6 में इस प्रकार से पुनःसंख्यायित मद (i) संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों से अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः

"21 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिक अथवा समतुल्य पर 24 घण्टों के लिए 48 ग्राम/घनमीटर पर मिथाईल ब्रोमाईट से धूमन अथवा 30 मिनट तक 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापोपचार अथवा भारत सरकार के पादप रक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित अन्य कोई उपचार । उपचार को उद्गम अथवा पुनःनिर्यात के देश पर जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र से पृष्ठांकित किया जाएगा" .

(vi) स्माल फूट प्लाण्ट स्पेसीशज के संबंध में क्रम संख्या 292 के सामने, ब्लू बेरी से संबंधित प्रविष्टि (क) (ii) के सामने खपत हेतु ताजे फल की श्रेणी के सामने (i) के रूप में पुनःसंख्यायित किया जाएगा और इस प्रकार से पुनःसंख्यायित प्रविष्टि के बाद तथा कॉलम (5) और कॉलम (6) में उनसे संबंधित प्रविष्टि के बाद क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, नामतः

(4)	(5)	(6)
"(ii) चीली	निम्नलिखित से मुक्त : (क) स्पोडोपेट्रा इरिडेनिया (सदर्न आरमीवर्म) (ख) स्पोडोटेरा फुगिपरडा (फाल आरमीवर्म) (ग) डायापोरथे वेक्सनी (फोमोक्सीस टर्पिंग ब्लाइट आफ ब्लूबेरी) (घ) टोमेटो रिंगस स्पॉट वाइरस (रिंगस्पॉट आफ टोमेटो)	21 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक पर 2 घण्टों के लिए 32 ग्राम/घन मीटर की पर मिथाईल ब्रोमाईट धूमन या भारत सरकार के वनस्पति रक्षण सलाहकार द्वारा विधिवत अनुमोदित कोई अन्य उपचार उपचार को उद्गम/ पुनःनिर्यात देश पर जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा ।

(vii) कॉलम 5 और 6 में 'उपभोग हेतु ताजा फल' और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सम्मुख कॉलम (4) में मद (XIII) के पश्चात "विटशिविनेफेरा (अंगूर) से संबंधित क्रम सं. 319 के सम्मुख निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाए", नामतः:-

(4)	(5)	(6)
XIV स्पेन	निम्नलिखित से मुक्त (क) अमेटेस्टेजिया (ख) सेराटीटिस कैपिटला	(क) सेरेटिटिशि कैपिटला (मेडीटेरियन फ्रूट फ्लाई) हेतु नाशीजीव मुक्त स्थिति

	(मेडिटिरियन फ्रूट फ्लाई) (ग) फ्रेंकलिनियला ऑक्सीडेंटलिस (वेस्टर्न फलावर थ्रिप्स) (घ) लिमोथ्रिप्स सेरेलियम (कॉर्न, थ्रिप्स) (ङ) लोबेशिया बोद्राना (ग्रेप बेरी मोथ) (च) सोडाप्टेरा लिटोरालीस (काटन लीफ वार्म) (छ) हैलिक्स सपेरसा (साधारण नमक) (ज) फाइक्रेमोनियम एलोफिलम (पैट्री डिजीज़) (झ) फाइमोनियला क्लैम्डोस्पेरा (पैट्री डिजीज़) () टाफथोरा क्रैपटोजी (टैमोटो फूट रोट)	अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों अथवा 10 दिन हेतु 0 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे कम; 11 दिन हेतु 0.55 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे कम; 12 दिन हेतु 1.1 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे कम पर लदानपूर्वक शीत उपचार इसके साथ ही मेडिटरेनियन फ्रूट फ्लाई हेतु इंद्राजित प्राशीतन (क) एनएपी पर 21 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे अधिक तापमान पर 2 घंटे के लिए 40 ग्राम प्रति क्यूबिक मी. की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड का छिड़काव अथवा मेडिटरेनियन फ्रूट फ्लाई हेतु इसी के समकक्ष
--	---	---

(viii) कॉलम 5 एवं 6 में बीज और बुआई और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने कॉलम 4 में मद (iv) के पश्चात पेनिसिप्टम ग्लावकम (बाजरा) से संबंधित क्रम सं. 495 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियों अंतःस्थापित की जाएं नामतः,

4	5	6
V आस्ट्रेलिया	निम्नलिखित से मुक्त: (क) जोनसॉग्रास मोजाइक वायरस (ख) विटस्ट्रीक मोजाइक वायरस (गेहूं, विषाणु 6 एवं 7)	(i) संगरोध खरपतवार बीज से मुक्त (ii) कृषि एवं सहकारिता विभाग के पूर्वानुमोदन क अध्यक्षीन व्यावसायिक आयात

		(iii) 2 3 माह हेतु पश्चात प्रवेश संगरोध (iv) जोनसोंगयास मोजाइक वायरस और विटस्ट्रीक मोजाइक वायरस (गेहूं वायरस (6 एवं 7) से मुक्त होने के लिए फसल जांच एवं प्रमाणीकरण
--	--	--

(ix) कालम 3 में पेरसीअमेरिकाना (अवोकाडा) से संबंधित क्र.सं. 64 के सामने कॉलम 4 5 एवं 6 में उससे संबंधी निम्नलिखित श्रेणी में संबंधित प्रविष्टियां की जाएं नामतः

3	4	5	6
ii खपत हेतु ताजा फल	चिली	निम्नलिखित से मुक्त (क) क्राइसोडैक्सिस में (सोयाबीन लुपर) शामिल हैं। (ख) नाउपैक्टस जेन्थोग्राफस (साउथ अमेरिकन फ्रूट ट्री विबिल) (ग) पैरीड्रोमा सोसिया (पीअरली अंडरविंग मोठ) (घ) सोडोपट्रा एरीडानिया (साउर्दन आर्मीवार्म) (ङ) फाइटोफेथोरा क्रैप्टोजी (टॉमटो फुटरोट)	21 डिग्री सें. अथवा उससे अधिक तापमान पर 2 घंटे के लिए 32 ग्राम/क्यूबिक मी. की दर पर मिथाइल बोमाइड का धूमन अथवा पौध संरक्षक सलाहकार, भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित कोई अन्य उपचार। उपचार और उदगम का देश/पुनर्निर्यात देश द्वारा जारी पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए।

6 पौध संगरोध के अनुसूची XII (भारत में आयात का विनियमन) आदेश 2003 हेतु निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाए नामतः

अनुसूची XII

[खंड 3 (4) देखें]

राष्ट्रीय पौध आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो के जीन बैंक हेतु परीक्षण उद्देश्य/अभिगमन हेतु

अनुमत बीज मात्रा

फसल प्रजाति	बहुस्थानिक परीक्षण (एमएलटी) (किग्रा)	कृषि जलवायुकीय परीक्षण	एमएलटी+एटी(किग्रा)	जीन अभिगमन (जीएम/बीज)
1. उड़द	6.0	14.0	20.0	200/2500
2. एरंड	6.0	9.0	15.0	900/4500
3. चना	30.0	70.0	100.0	800/2500
4. लोबिया	10.0	20.0	30.0	300/2500
5. मूंग	6.0	14.0	20.0	500/2500
6. मूंगफली	50.0	100.0	150.0	900/2500
7. मसूर	10.0	20.0	30.0	70/2500
8. अलसी	10.0	15.0	25.0	15/2500
9. मक्का	10.0	10.0	20.0	700/4500
10. छोटा कंदन	4.0	6.0	10.0	15/4500
11. तिल	4.0	4.0	8.0	10/4500
12. धान	--	--	16.0	50/2500
13. बाजरा	2.0	3.0	5.0	15/4500
14. मटर	30.0	70.0	100.0	600/2500
15. अरहर	6.0	14.0	20.0	400/2500
16. राजमा	20.0	30.0	50.0	500/2500
17. सरसो	2.0	3.0	5.0	6/2500
18. कुसुम	4.0	6.0	10.0	100/4500
19. रामतिल	2.0	3.0	5.0	6/2500
20. सूरजमुखी	4.0	6.0	10.0	100/4500
21. सोरघम	4.0	6.0	10.0	35/4500
22. सोयाबीन	20.0	55.0	75.0	400/2500
23. गेहूँ	---	---	5.0	150/2500

बीज का आकार फसल की किस्म-दर-कसम, अलग-अलग होता है। तथापि सेल्फ/क्रासपलीनेटेड हेतु जीन बैंक मानदंडों हेतु प्रति किस्म बीज की संख्या भी प्रत्येक फसल हेतु दी गई है। बीजों को किसी रसायन से उपचारित नहीं करना चाहिए।

7. अनुसूची VII में संशोधन-289 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश 2003 की अनुसूची VII में निम्नलिखित क्र.सं. एवं

प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, नामतः " 289 " मौलुस डोमेस्टिका (सूखे सेब के टुकड़े-सल्फाइड उपचारित)

290. मौलुस डोमेस्टिका (सूखे सेब पफड चिप्स-चीनामम डस्टेड)

[फा. सं. 8-57/2011-पीपी II]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 दिनांक 18 नवम्बर, 2003 को का.आ.1322 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और इसके पश्चात् दिनांक 6 फरवरी, 2004 को का.आ. 167 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2004 से का.आ. 427 (अ), दिनांक 31 मई, 2004, का.आ. 644 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2005, का.आ. 462 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 2006, का.आ. 1121(अ), दिनांक 31 दिनांक, 2006 का.आ. 1353(अ), दिनांक 31 अक्टूबर, 2006, का.आ. 1873(अ), दिनांक 6 दिसम्बर, 2006, सं. का.आ. 3(अ), दिनांक 8 दिसम्बर, 2008, का.आ. 2847(अ), दिनांक 15 दिसम्बर, 2008, का.आ. 2888(अ), दिनांक 9 सितम्बर, 2009, का.आ. 2286(अ), दिनांक 16 सितम्बर, 2009, का.आ. 2390(अ), दिनांक 23 दिसम्बर, 2009, का.आ. 3269(अ), दिनांक 24 दिसम्बर, 2009, का.आ. 3298(अ), दिनांक 21 अप्रैल, 2010, का.आ. 907(अ), दिनांक 27 अगस्त, 2010 का.आ. 2095(अ), दिनांक 15 सितम्बर, 2010, का.आ. 2284(अ), दिनांक 11 अक्टूबर, 2010, का.आ. 2516(अ), दिनांक 4 नवम्बर, 2010 का.आ. 2711(अ), दिनांक 4 नवम्बर, 2010, का.आ. 3052(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 का.आ. 887(अ), दिनांक 28 अप्रैल, 2011 और दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 का.आ. 2845(अ), और दिनांक 17 फरवरी, 2012 का.आ. 296(अ), द्वारा इसमें संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2775(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Second Amendment) Order, 2012.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I of Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, under the heading "Airports", after serial number 13, and the entry relating thereto the following serial numbers and entries shall be added, namely :-

"14. Coimbatore"

15. Bagdogra".

3. In the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, in Schedule II, after serial number 61 and the entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be added in the respective columns:-

62. The Thar Dry Port, ICD Sanand, Ahmedabad	Gujarat	Inland Container Depot	Plant Quarantine Station, Kandla
63. ICD, Loni	New Delhi	Inland Container Depot	National Plant Quarantine Station, Rangpuri"

4. In the Schedule V of the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 for serial number 11 and 16 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

S.No.	Plant Species	Category of plant material	Additional declarations required to be incorporated into phytosanitary certificate	Special conditions of import	Responsibility of authorized Institutions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Rice (<i>Oryza Sativa</i>)	(i) Seeds for sowing	(i) Freedom from: (a) Granary weevil (<i>Sitophilus granaries</i>) (b) Sheath brown rot (<i>Pseudomonas fuscovaginae</i>) (c) Seedling rot (<i>Pseudomonas glumae</i>) (d) Bacterial halo blight (<i>Pseudomonas syringae pv. Oryzae</i>) (e) Quarantine weed seeds	Seed soaking overnight and hot water treatment at 52°C for 10 minutes.	(a) Approval of Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture as per provisions of New Policy on Seed Development (NPSD), 1988. (b) Subject to the recommendation supervision, monitoring and testing by Director, NBPGR, New Delhi / Director, Directorate of Rice Research, Hyderabad.
16	Wheat (<i>Triticum spp.</i>)	(i) Seeds for sowing	(i) Freedom from: (a) Dwarf bunt (<i>Tilletia contraversa</i>)		(a) Approval of Department of Agriculture and

			(b) Ergot (<i>Claviceps purpurea</i>) (c) Spike rot (<i>Pseudomonas atrofaciens</i>) (d) Granary weevil (<i>Sitophilus granaries</i>) (e) Quarantine weed seeds		Cooperation, Ministry of Agriculture as per provisions of New Policy on Seed Development (NPSD), 1988. (b) Subject to recommendation, supervision, monitoring and testing by Director, NBPGR, New Delhi / Director, Directorate of Wheat Research, Karnal."
--	--	--	--	--	--

5. Amendment of Schedule VI.- In the Schedule VI to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003,-

- (i) Against serial number 38 relating to "*Asparagus officinalis* (Asparagus)" in column (3) against the entry (iii) regarding Vegetable for consumption, in column (4) after the item (i) and the entries relating thereto, in column (5) and (6) the following items and entries shall respectively be inserted, namely:-

(4)	(5)	(6)
" (ii) Peru	Free from : (a) <i>Chrysodeixis includens</i> (soybean looper) (b) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth) (c) <i>Spodoptera frugiperda</i> (fall armyworm)	(i) Free from soil and other plant debris. (ii) Fumigation with Methyl bromide @ 32 g/cu. M for 2 hrs at 21°C and above under NAP and the treatment to be endorsed on Phytosanitary certificate. "

- (ii) For serial number 58 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S.No.	Plant Species	Category of plant material	Country of Origin	Additional declarations required to be incorporated into phytosanitary certificate	Special conditions of import
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58	<i>Cajanus cajan</i> (Pigeon pea)	Grain (seed) for consumption	(i) Australia	Free from <i>Richardia brasiliensis</i>	(i) Free from soil contamination. (ii) Fumigation by Methyl bromide at 32 g per cubic meter for 24 hrs at 21°C or equivalent or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India and the treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin or re-export.
			(ii) Mozambique	Free from: (a) <i>Clavigralla elongate</i> (African podbug) (b) <i>Ditylenchus africanus</i> (peanut pod nematode) (c) <i>Hopolaimus pararobustus</i> (lance nematode) (d) <i>Meloidogyne ethiopica</i> (e) <i>Meloidogyne decalineata</i> (African coffee root-knot nematode) (f) <i>Alectra vogelii</i> (yellow witch weed) (g) <i>Chrysanthemoides monilifera</i> (Boneseed) (h) <i>Digitaria velutina</i> (velvet finger grass) (i) <i>Orobancha minor</i> (Common broomrape) (j) <i>Oryza longistaminata</i> (perennial wild rice) (k) <i>Raphanus raphanistrum</i> (wild raddish) (l) <i>Richardia brasiliensis</i> (white-eye Australia) (m) <i>Senecio inaequidens</i> (African ragwort) (n) <i>Senecio madagascariensis</i> (firewood)	

			(iii) Myanmar	Free from: (a) <i>Cardiospermum halicacabum</i> (Balo onvine) (b) <i>Physalis angulata</i> (cutleaf groundcherry) (c) <i>Pueraria Montana</i> var. <i>Montana</i> (Rhodesian kudzu-vine) (d) <i>Richardia brasiliensis</i> (white-eye Australia)	
			(iv) Nepal	Free from: (a) <i>Lolium multiflorum</i> (Italian (b) rye grass) (b) <i>Polygonum persicaria</i> (red shank) (c) <i>Veronica persica</i> (creeping speedwell)	
			(v) China	Free from <i>Heterodera glycines</i> (Cyst nematode)	
			(vi) Iran	Free from <i>Apomyelois ceratoniae</i> (carob moth)	
			(vii) Kenya	Free from: (a) <i>Clavigralla elongate</i> (African podbug) (b) <i>Melanagromyza chalcosoma</i> (pod fly) (c) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (stem and bulb nematode) (d) <i>Hoplolaimus pararobustus</i> (lance nematode) (e) <i>Pratylenchus goodeyi</i> (banana lesion nematode)	

4385 GE/12-5

				(f) <i>Alectra vogelii</i> (yellow witch weed) (g) <i>Digitaria velutina</i> (velvet finger grass) (h) <i>Cirsium vulgare</i> (spear thistle) (i) <i>Conyza sumatrensis</i> (tall fleabane) (j) <i>Lolium multiflorum</i> (Italian rye grass) (k) <i>Lonicera japonica</i> (Japanese honeysuckle) (l) <i>Orobancha minor</i> (Common broomrape) (m) <i>Oryza longistaminata</i> (perennial wild rice) (n) <i>Pennisetum macrourum</i> (African feather grass) (o) <i>Polygonum persicaria</i> (red shank) (p) <i>Raphanus raphanistrum</i> (wild raddish) (q) <i>Richardia brasiliensis</i> (white-eye Australia) (r) <i>Senecio madagascariensis</i> (firewood)	
			(viii) Pakistan	Nil	
			(ix) Tanzania	Free from: (a) <i>Clavigralla elongate</i> (African podbug) (b) <i>Hopolaimus pararobustus</i> (lance nematode) (c) <i>Meloidogyne decalineata</i> (African coffee root-knot nematode) (d) <i>Meloidogyne ethiopica</i> (e) <i>Pratylenchus goodeyi</i> (banana lesion nematode) (f) <i>Alectra vogelii</i> (yellow witch weed) (g) <i>Digitaria velutina</i> (velvet finger grass) (h) <i>Orobancha minor</i> (Common broomrape) (i) <i>Oryza longistaminata</i> (perennial wild rice) (j) <i>Pennisetum macrourum</i> (African feather grass) (k) <i>Striga aspera</i> (witch weed)	
			(x) Malawi	Free from: (a) <i>Clavigralla elongate</i>	

				(African podbug) (b) <i>Ditylenchus destructor</i> (peanut pod nematode) (c) <i>Hopolaimus pararobustus</i> (lance nematode), (d) <i>Meloidogyne acronea</i> (African cotton root nematode) (e) <i>Alectra vogelii</i> (yellow witch weed) (f) <i>Digitaria velutina</i> (velvet finger grass) (g) <i>Orobancha minor</i> (Common broomrape) (h) <i>Oryza longistaminata</i> (perennial wild rice) (i) <i>Pennisetum macrourum</i> (African feather grass) (j) <i>Richardia brasiliensis</i> (white-eye Australia) (k) <i>Striga aspera</i> (witch weed)	
			(xi) Uganda	Free from: (a) <i>Clavigralla elongate</i> (African podbug) (b) <i>Hopolaimus pararobustus</i> (lance nematode) (c) <i>Pratylenchus goodeyi</i> (banana lesion nematode) (d) <i>Alectra vogelii</i> (yellow witch weed) (e) <i>Centrodema pubescens</i> (Centro) (f) <i>Conyza sumatrensis</i> (tall fleabane) (g) <i>Digitaria velutina</i> (velvet finger grass) (h) <i>Orobancha minor</i> (Common broomrape) (i) <i>Pennisetum macrourum</i> (African feather grass) (j) <i>Polygonum persicaria</i> (red shank) (k) <i>Melanagromyza</i> <i>chalcosoma</i> (bean pod fly)	

(iii) Against serial number 83 relating to 'Citrus spp. (Lemon, lime, orange, grapefruit, mandarins; etc. and other rutaceous)' against the category 'fresh fruit for consumption':-

a) for the 'entries in column 6 against 'Australia' the following entries shall be substituted namely:-

" Pest free area status for *Bactrocera aquilonis*, *Bactrocera neohumeralis*, *Bactrocera tryoni* (Queensland fruit fly) and *Ceratitis capitata* (Mediterranean fruit fly) as per international standards

Or

MBr fumigation @ 32g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Queensland fruit fly and Mediterranean fruit fly

Or

In transit cold treatment at 3°C or below for 20 days against Mediterranean fruit fly and for 16 days against Queensland fruit fly."

- b) after item (xii) in column (4) and the entries relating thereto in columns (5) and (6), the following entries shall respectively be inserted namely:-

(4)	(5)	(6)
"(xiii) Turkey	Free from : <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly)	Pest free status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards Or Methyl Bromide fumigation @ 32gm/cum for 2 hrs @ 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly Or Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly.
(xiv) Spain	Free from: <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly)	Pest free status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards Or Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly Or Methyl Bromide fumigation @ 32gm/cum for 2 hrs @ 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly "

- (iv) Against serial number 262, in column (2) against the entry (ii) regarding *Malus domestica* in column (4), after item (iii) and the entries relating thereto in column (5) and (6), the following item and the entries relating thereto shall be respectively inserted. namely:-

(4)	(5)	(6)
(iv) Turkey	Free from : (a) <i>Byturus tomentosus</i> (raspberry beetle) (b) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (c) <i>Epidiaspis leperii</i> (European pear scale) (d) <i>Frankliniella occidentalis</i> (western flower thrips) (e) <i>Grapholita funebrana</i> (red plum maggot) (f) <i>Grapholita molesta</i> (oriental fruit moth) (g) <i>Hedya nubiferana</i> (bud moth) (h) <i>Hoplocampa</i> (i) <i>Lymantria monacha</i> (nun moth) (j) <i>Erwinia amylovora</i> (fireblight) (k) <i>Tomato ringspot virus</i> (ringspot of tomato)	a) Pest free status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (b) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly. "

- (v) Against serial number 279 relating to *Salix* spp. (Willows) the entries in Column 3 shall be re-numbered as item (i) and the entries relating to item (i) as so re-numbered in column 6 shall be substituted by the following entries namely:-

" Fumigation with methyl bromide at 48 g per cubic meter for 24 hrs at 21°C and above or equivalent thereof or heat treatment at 56°C for 30 minutes or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin or re-export".

- (vi) Against serial number 292, regarding small fruit plant species, against the entry (a) (ii) regarding blue berry the entry in column (4), against the category fresh fruit for consumption shall be re-numbered as (i) and after the entry so re-numbered and the entries relating thereto in column (5) and (6), the following entries shall be respectively inserted, namely:-

(4)	(5)	(6)
(ii) Chile	Free from : (a) <i>Spodoptera eridania</i> (Southern armyworm) (b) <i>Spodoptera frugiperda</i> (fall armyworm) (c) <i>Diaporthe vaccinii</i> (Phomopsis twig blight of blue berry) (d) <i>Tomato ringspot virus</i> (ringspot of tomato)	Fumigation with Methyl Bromide at 32 g per cubic meter for 2 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment duly approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export. "

4385 GI/12-6

- (vii) Against serial number 319 relating to "*Vitis vinifera* (Grapes)' after item (xiii) in column (4) against the entries relating to 'Fresh fruits for consumption' and the entries relating thereto, in column (5) and (6) the following entries shall respectively be inserted, namely:-

(4)	(5)	(6)
(xiv) Spain	Free from : (a) <i>Ametastegia</i> (b) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (c) <i>Frankliniella occidentalis</i> (western flower thrips) (d) <i>Limothrips cerealium</i> (corn, thrips) (e) <i>Lobesia botrana</i> (grape berry moth) (f) <i>Sodoptera littoralis</i> (cotton leafworm) (g) <i>Helix aspersa</i> (common salt) (h) <i>Phaeoacremonium aleophilum</i> (Petri disease) (i) <i>Phaeomoniella chlamydospora</i> (Petri disease) (j) <i>Phthorophthora cryptogea</i> (tomato foot rot)	a) Pest free status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly. (b) Methyl Bromide fumigation @ 40 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against Mediterranean fruit fly.

- (viii) Against serial number 495 relating to "*Pennisetum glaucum* (Pearl millet)' after item (iv) in column (4) against the entries relating to 'Seeds for sowing' and the entries relating thereto, in column (5) and (6) the following entries shall respectively be inserted, namely:-

(4)	(5)	(6)
(v) Australia	Free from : (a) <i>Johnsongrass mosaic virus</i> (b) <i>Wheat streak mosaic virus</i> (wheat virus 6 and 7)	(i) Freedom from quarantine weed seeds. (ii) Commercial imports subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation. (iii) Post-entry quarantine growing for 2-3 months. (iv) Crop inspection and certification for freedom from: <i>Johnsongrass mosaic virus</i> and <i>Wheat streak mosaic virus</i> (wheat virus 6 and 7).

- (ix) Against serial number 564 relating to "*Persea americana* (Avocado)' in column (3) the following category and respective entries relating thereto, in column (4), (5) and (6) shall respectively be inserted, namely:-

(3)	(4)	(5)	(6)
(ii) Fresh fruits for consumption	(i) Chile	Free from: (a) Chrysodeixis includes (soybean looper) (b) Naupactus xanthographus (South American fruit tree weevil) (c) Peridroma saucia (pearly underwing moth) (d) Spodoptera eridania (southern armyworm) (e) Phytophthora cryptogea (tomato foot rot)	Fumigation with Methyl Bromide @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above or any other treatment duly approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export. 1)

6. For the Schedule XII of the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 the following schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE-XII

[See clause 3 (4)]

Quantities of seeds permitted for trial purpose/accession to gene bank of National Bureau of Plant Genetic Resources.

Crop Species	Multi-location Trials (MLT)(Kg)	Agronomic Trials (AT)(Kg)	MLT+ AT (Kg)	Accession To gene (Gm/Seed)
1. Black gram	6.0	14.0	20.0	200/2500
2. Castor	6.0	9.0	15.0	900/4500
3. Chick pea	30.0	70.0	100.0	800/2500
4. Cow pea	10.0	20.0	30.0	300/2500
5. Green gram	6.0	14.0	20.0	500/2500
6. Groundnut (Pod)	50.0	100.0	150.0	900/2500
7. Lentil	10.0	20.0	30.0	70/2500
8. Linseed	10.0	15.0	25.0	15/2500
9. Maize	10.0	10.0	20.0	700/4500
10. Minor millet	4.0	6.0	10.0	15/4500
11. Niger	4.0	4.0	8.0	10/4500
12. Paddy	--	--	16.0	50/2500
13. Pearl millet	2.0	3.0	5.0	15/4500
14. Peas	30.0	70.0	100.0	600/2500
15. Pigeon pea	6.0	14.0	20.0	400/2500
16. Rajmah	20.0	30.0	50.0	500/2500
17. Rape/ Mustard	2.0	3.0	5.0	6/2500
18. Safflower	4.0	6.0	10.0	100/4500
19. Sesamum	2.0	3.0	5.0	6/2500
20. Sunflower	4.0	6.0	10.0	100/4500
21. Sorghum	4.0	6.0	10.0	35/4500
22. Soybean	20.0	55.0	75.0	400/2500
23. Wheat	--	--	5.0	150/2500

*The seed size varies considerably from variety to variety of crop. Hence, number of seeds per variety as per the gene bank standards for self/cross pollinated is also given for each crop. Seeds should not be treated with any chemical.

7. Amendment of Schedule VII.- In the Schedule VII to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 after serial number 289 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted namely-

- “289 ” *Malus domestica* (dried apple pieces – sulphite treated)
290 *Malus domestica* (dried apple puffed chips- cinnamon dusted)”

[F. No. 8-57/2011-PP. II]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, vide, number S.O. 1322 (E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S.O.167(E), dated 6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462 (E), dated 31st March 2005, S.O. 1121 (E), dated 14th July 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July 2006, S.O. 1873 (E), dated 31st October 2006, S.O. 2074 (E), dated 6th December 2006, S.O. 2069 (E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 31st December, 2007, S.O. 2847 (E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390 (E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269 (E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298 (E), dated 24th December, 2009, S.O. 907 (E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516 (E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711 (E) dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E) dated 28th December, 2010, S.O. 887 (E) dated 28th April, 2011, S.O. No. 2845 (E) dated 21st December, 2011 and S.O. No.296 (E) dated 17th February, 2012.